





साहित्य सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानविय की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

समस्त प्राण के भवन / देवदार की चुन्नी रतु
निम्न स्तरों पर समस्त धीमत्तों के आर
आरक्षणीयता, दाई कीम आत्मता संयोग / आरक्षक
है। जो दीर्घायुता, केवल सिद्धता व प्रत्येक छतु
के नीचे डाले जाय।

अपवर्ण्य की दृष्टि से राज्य इस निमित्त
अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम
पञ्च तमाम अतिथि हैं।

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ $\frac{1}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$ $\frac{1}{24} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{120}$ $\frac{1}{120} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{720}$ $\frac{1}{720} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{5040}$ $\frac{1}{5040} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{40320}$ $\frac{1}{40320} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{362880}$ $\frac{1}{362880} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{3628800}$ $\frac{1}{3628800} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{39916800}$ $\frac{1}{39916800} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{479001600}$ $\frac{1}{479001600} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{6227020800}$ $\frac{1}{6227020800} \times \frac{1}{14} = \frac{1}{87178291200}$ $\frac{1}{87178291200} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{1307674368000}$ $\frac{1}{1307674368000} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{20922790016000}$ $\frac{1}{20922790016000} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{355687430272000}$ $\frac{1}{355687430272000} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{6402373744992000}$ $\frac{1}{6402373744992000} \times \frac{1}{19} = \frac{1}{121645001154848000}$ $\frac{1}{121645001154848000} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{2432900023096960000}$ $\frac{1}{2432900023096960000} \times \frac{1}{21} = \frac{1}{51090900485035136000}$ $\frac{1}{51090900485035136000} \times \frac{1}{22} = \frac{1}{1124000010670772992000}$ $\frac{1}{1124000010670772992000} \times \frac{1}{23} = \frac{1}{25852000245427777824000}$ $\frac{1}{25852000245427777824000} \times \frac{1}{24} = \frac{1}{620448005890266671776000}$ $\frac{1}{620448005890266671776000} \times \frac{1}{25} = \frac{1}{15511200147256666794400000}$ $\frac{1}{15511200147256666794400000} \times \frac{1}{26} = \frac{1}{403291203828663336704000000}$ $\frac{1}{403291203828663336704000000} \times \frac{1}{27} = \frac{1}{10886811502164809070016000000}$ $\frac{1}{10886811502164809070016000000} \times \frac{1}{28} = \frac{1}{304830722060614653960448000000}$ $\frac{1}{304830722060614653960448000000} \times \frac{1}{29} = \frac{1}{8840090939757823964852992000000}$ $\frac{1}{8840090939757823964852992000000} \times \frac{1}{30} = \frac{1}{265202728192734718945589760000000}$ $\frac{1}{265202728192734718945589760000000} \times \frac{1}{31} = \frac{1}{8221284573974776287312482560000000}$ $\frac{1}{8221284573974776287312482560000000} \times \frac{1}{32} = \frac{1}{263081106367192841193999441920000000}$ $\frac{1}{263081106367192841193999441920000000} \times \frac{1}{33} = \frac{1}{86816765091173637593819815833600000000}$ $\frac{1}{86816765091173637593819815833600000000} \times \frac{1}{34} = \frac{1}{2951770013099903678189873738342400000000}$ $\frac{1}{2951770013099903678189873738342400000000} \times \frac{1}{35} = \frac{1}{103811950458496628736645580832032000000000}$ $\frac{1}{103811950458496628736645580832032000000000} \times \frac{1}{36} = \frac{1}{3737230216505878634519240909953120000000000}$ $\frac{1}{3737230216505878634519240909953120000000000} \times \frac{1}{37} = \frac{1}{1382775180107685094862129136682668800000000000}$ $\frac{1}{1382775180107685094862129136682668800000000000} \times \frac{1}{38} = \frac{1}{524454568440920335037609071938413120000000000000}$ $\frac{1}{524454568440920335037609071938413120000000000000} \times \frac{1}{39} = \frac{1}{20453728169635892866466753807608512000000000000000}$ $\frac{1}{20453728169635892866466753807608512000000000000000} \times \frac{1}{40} = \frac{1}{818149126785435714658670152304340480000000000000000}$ $\frac{1}{818149126785435714658670152304340480000000000000000} \times \frac{1}{41} = \frac{1}{33544115218002884401005576344477960320000000000000000}$ $\frac{1}{33544115218002884401005576344477960320000000000000000} \times \frac{1}{42} = \frac{1}{14008446291561233580422352174680764128000000000000000000}$ $\frac{1}{14008446291561233580422352174680764128000000000000000000} \times \frac{1}{43} = \frac{1}{60236329053713384490810113771007286950400000000000000000000}$ $\frac{1}{60236329053713384490810113771007286950400000000000000000000} \times \frac{1}{44} = \frac{1}{265059847836542911761564515608432263381760000000000000000000000}$ $\frac{1}{265059847836542911761564515608432263381760000000000000000000000} \times \frac{1}{45} = \frac{1}{11927693152644431014270403202377450902176000000000000000000000000}$ $\frac{1}{11927693152644431014270403202377450902176000000000000000000000000} \times \frac{1}{46} = \frac{1}{548611676621643826647738149109142541300224000000000000000000000000}$ $\frac{1}{548611676621643826647738149109142541300224000000000000000000000000} \times \frac{1}{47} = \frac{1}{25784647700222668751444699717929709447110400000000000000000000000000}$ $\frac{1}{25784647700222668751444699717929709447110400000000000000000000000000} \times \frac{1}{48} = \frac{1}{1237663087610687080069444584050624053440256000000000000000000000000000}$ $\frac{1}{1237663087610687080069444584050624053440256000000000000000000000000000} \times \frac{1}{49} = \frac{1}{606453912929235669233927846185815986185728000000000000000000000000000000}$ $\frac{1}{606453912929235669233927846185815$



ENTRY/EXIT

30 MT. WIDE ROAD

PROJECT—UNINAV HEIGHTS
PROPOSED RESIDENTIAL COMPLEX
AT Kinasa No. - 990, 999 & 1000,
Noor Nagar, Ghaziabad (U.P.)

BUILDERS & PROMOTER:-
M/s UNINAV DEVELOPERS PVT. LTD.
Road, Off-147, 1st Floor, Ram Vihar (Delhi)

	OWNER SIGN _____ Director		ARCHITECT SIGN _____	
	ARCHITECTS: APS GREEN ARCHITECTS & ASSOCIATES 2000 WEST 10TH AVENUE, SUITE 200 MIAMI, FL 33135 TEL: 305.382.7400 FAX: 305.382.7401 E-MAIL: info@apsgreen.com		DATE: _____ 1:30	
DRAWN BY: KAMAL		CHECKED BY: ASHEM		1:30

SITE PLAN